




भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4
PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY



सं० 37]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 16, 1983/कार्तिक 25, 1905

No. 37]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 16, 1983/KARTIKA 25, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

रक्षा मंत्रालय

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 1983

का.नि.आ. 81(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, दिल्ली के गठन में फेरफार होना बांछनीय है, एतद्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अतिरिक्त निदेश देती है कि 16 नवम्बर, 1983 से छः मास की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या-29/13/सी/भू. व छा./76/7178-सी/डी. (क्यू.
एण्ड. सी.)]

MINISTRY OF DEFENCE

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 16th November, 1983

S.R.O. 81(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Gov-

1034 GI/83

ernment being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Delhi, hereby makes a declaration to that effect and further directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of six months with effect from the 16th November, 1983 or till a Board is constituted under Section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29/13/C/L&C/76/7178-C/D (Q&C)]

का.नि.आ. 82(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 81(ई), दिनांक 16-11-1983 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 16-11-1983 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को छावनी बोर्ड दिल्ली के सदस्य के रूप में 16 नवम्बर, 1983 से मनोनीत किया गया है :—

1. ले. कर्नल टी. सी. बेदी :—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित

(1)

2. श्री सुरेश चन्द :—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या -29/13/सी/भू. व छा./76/7178/1/डी. (क्यू. एण्ड. सी.)]

S.R.O. 82(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O., 81(E) dated the 16th November, 1983, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II, Section 4, dated the 16th November, 1983, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated to be the members of the Cantonment Board, Delhi with effect from 16th November, 1983 :—

1. Lt. Col. T. C. Bedi:— nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.

2. Shri Suresh Chand:— nominated under clause (c) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 29/13/C/L & C/76/7178/1/D(Q&C)]

का.नि.आ. 83(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार यह समाधान होने पर कि छावनी प्रशासन के लिए छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद के गठन में फेरफार होना बांछनीय है, एतद्वारा तदर्थ घोषणा करती है और यह अतिरिक्त निदेश देती है कि 16 नवम्बर, 1983 में छः मास की कालावधि के लिए अथवा उक्त अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत बोर्ड के गठन होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, उक्त छावनी बोर्ड के गठन में फेरफार किया हुआ रहेगा।

[फाइल संख्या-29/42/सी/भू. व छा./66/7179-सी/डी (क्यू. एण्ड. सी.)]

S.R.O. 83(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924), the Central Government being satisfied that for the administration of the Cantonment, it is desirable to vary the constitution of the Cantonment Board, Secunderabad hereby makes a declaration to that effect and further

directs that the constitution of the said Board shall stand varied for a period of six months with effect from the 16th November, 1983 or till a Board is constituted under section 13 of the said Act, whichever is earlier.

[F. No. 29/42/C/L&C/66/7179-D(Q&C)]

का.नि.आ. 84(ई).—छावनी अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 14 की उपधारा (3) के अनुसरण में जिसे भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. नि. आ. 83(ई), दिनांक 16-11-1983 के साथ जो कि भारत सरकार के असाधारण राजपत्र दिनांक 16-11-1983 के भाग-2, खण्ड-4 में प्रकाशित हुआ था, पढ़ा जाए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा अधिसूचित करती है कि निम्नलिखित दो व्यक्तियों को छावनी बोर्ड, सिकंदराबाद के सदस्य के रूप में 16 नवम्बर, 1983 में मनोनीत किया गया है :—

1. ले. कर्नल के.पी. वसुदेवन :—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ख) के अन्तर्गत नामांकित

2. श्री डी. नरसिंह राव :—धारा 14 की उपधारा (2) के खण्ड (ग) के अन्तर्गत नामांकित

[फाइल संख्या-29/42/सी/भू. व छा./66/7179/1/डी. (क्यू. एण्ड. सी.)]

कं. श्रीनिवासन, संयुक्त सचिव

S.R.O. 84(E).—In pursuance of sub-section (3) of section 14 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924) read with the notification of the Government of India in the Ministry of Defence No. S.R.O. 83(E) dated the 16th November, 1983, published in the Government of India, Extraordinary Gazette, Part II, Section 4, dated the 16th November, 1983, the Central Government hereby notifies that the following two persons have been nominated to be the members of the Cantonment Board, Secunderabad with effect from the 16th November, 1983 :—

1. Lt. Col. K. P. Vasudevan:— nominated under clause (b) of sub-section (2) of section 14.

2. Shi D. Narsing Rao:— nominated under clause (i) of sub-section (2) of section 14.

[F. No. 29/42/C/L&C/66/7179 /1/D(Q&C)]
K. SRINIVASAN, Jt. Secy.